



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 9-अक्टूबर 15, 2004 (आश्विन 17, 1926)
No. 41] NEW DELHI SATURDAY, OCTOBER 9-OCT. 15, 2004 (ASVINA 17, 1926)

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	पृष्ठ 809	भाग II—खण्ड 3 उपखण्ड—(ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केंद्रीय प्राधिकरणों (सब शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	पृष्ठ 809
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1049	भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश	
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	3	भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1063
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1405	भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	76-19
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	
भाग II—खण्ड 1 क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	4151
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिना तथा रिपोर्टें	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	561
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केंद्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म मृत्यु के आंकड़ों की दर्शाने वाली समूहक	
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केंद्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*		

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।

CONTENTS

	Page		Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	.. 809	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	.. *
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	.. 1049	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	.. *
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	.. 3	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India.	.. 1063
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	.. 1405	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	.. 7669
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	.. *	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners	.. —
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations	.. *	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	.. 4151
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	.. *	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	.. 561
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	.. *	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	.. *
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).	.. *		

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 सितम्बर 2004

सं० 126-प्रेज/2004—भारत के राजपत्र के भाग I खंड I में दिनांक 21 फरवरी, 2004 को प्रकाशित सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक के संबंध में इस सचिवालय की दिनांक 26 जनवरी, 2004 को अधिसूचना सं० 2-प्रेस/2004 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

पृष्ठ संख्या 33 में पहला नाम

“श्री सुकुल हैम्ब्रम” :— के स्थान पर

“श्री सुकलाल हैम्ब्रम” :— पढ़ा जाए।

बरूण मित्रा, निदेशक

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर 2004

संकल्प

सं० 11-2/2002 प्रज्ञासन-4—इस मंत्रालय के दिनांक 21 अक्टूबर, 2003 के समसंख्यक संकल्प के अधिक्रमण में भारत सरकार एतद्वारा दिल्ली दुग्ध योजना की प्रबंधन समिति को तत्काल प्रभाव से पुनर्स्थापित करती है जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा :—

अध्यक्ष

1. संयुक्त सचिव (डीडी)

सदस्य

2. निदेशक (वित्त)

उपभोक्ता प्रतिनिधि

3. श्री राजेश भारद्वाज
डब्ल्यू 2-259-ए(एफ एफ),
केनरा बैंक बिल्डिंग,
उत्तम नगर,
नई दिल्ली-110059

4. श्री कंवरपाल यादव

सी-4, सर्वोदय कालोनी,
आई टी आई होस्टल के पीछे,
मेरठ-250003 (उत्तर प्रदेश)

सदस्य सचिव

5. महाप्रबंधक, दिल्ली दुग्ध योजना

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों/भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखाकार, सी०सी०ए०, वृषि और सहकारिता विभाग, प्रधान लेखा निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, मेयर, दिल्ली नगर निगम, अध्यक्ष, नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

नीरजा राजकुमार
संयुक्त सचिव

दिनांक 22 सितम्बर 2004

संकल्प

सं० 1-1/96-एल डी टी(ई डी)—इस मंत्रालय के दिनांक 6 अक्टूबर, 2003 के संकल्प सं० 1-1/96-एल डी टी(ई डी) के अधिक्रमण में भारत सरकार ने अश्व विकास बोर्ड को इस संकल्प के प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है।

2. अश्व विकास बोर्ड का गठन इस प्रकार होगा :—

अध्यक्ष

1. कृषि मंत्री

उपाध्यक्ष

2. कृषि राज्य मंत्री

भारत सरकार तथा उसके संबन्धित निहायों के प्रतिनिधि।

3. सदस्य

1. सचिव, भारत सरकार, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली-110001
2. पशुपालन आयुक्त, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली-110001
3. संयुक्त सचिव (डी डी एण्ड पी), पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली—सदस्य सचिव
4. उप महानिदेशक (पशु विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
5. अपर महानिदेशक, विद्युत पशुवैद्यक सेवा, सेना मुख्यालय, पश्चिम ब्लॉक, आर० के० पुरम, नई दिल्ली-110066
6. निदेशक, पशुपालन निदेशालय, राजस्थान सरकार, पशुधन भवन, टॉक रोड, जयपुर (राजस्थान)
7. निदेशक, पशुपालन निदेशालय, गुजरात सरकार, कृषि भवन, सेक्टर 10-ए, गांधीनगर-382010
8. निदेशक, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, सिरसा रोड, हिसार, हरियाणा
अश्व संगठन
9. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय अश्व प्रजनन सोसाईटी 8 नगर रोड, बरेली, पुणे-411006
10. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि० के प्रतिनिधि, 11 रेल कोस, महालक्ष्मी मुम्बई-400034
11. रॉयल कन्नडा टर्फ क्लब के प्रतिनिधि, 11 रेल स्ट्रीट, कोलकाता-700071
गैर सरकारी सदस्य
12. महाराजा गज सिंह, अध्यक्ष भारतीय स्वदेशी अश्व सोसाईटी, उमैद भवन पैलेस, जोधपुर-342006
13. श्री राजेन्द्र सिंह, दोआबा स्टड एंड एग्रीकल्चरल फार्म, पिसावा, टी ही फोर्ट, जिला अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)
14. डॉ० सावरस एस० पूनवाला, पी एच डी अध्यक्ष, पूनवाला स्टड फार्म्स एंड सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, 212/2 हदाम्पर, ऑफ सोली पूनवाला रोड, पुणे-411028

3. राज्य पशुपालन निदेशालय के निदेशकों, टर्फ क्लबों तथा गैर सरकारी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले उपरोक्त क्र० सं० 7, 8, 10, 11, 12, 13 एवं 14 में निहित सदस्यों के नामांकन की अवधि से दो वर्षों के लिए होगी।

4. अश्व विकास बोर्ड के कार्य निम्न होंगे :-

- अश्व विकास संबंधी सभी मामलों में सरकार को सलाह देना।
- आयात के लिए अश्वों के विदेशी स्टॉक के अश्वित शृद्ध रक्त का जायजा करना।
- आयातित एवं अन्य उन्नत किस्म के अश्वों के उपयोग को बढ़ाने के तरीके सुझाना।
- उन्नत किस्म के अश्वों के उत्पादन के लिए स्टड फार्मों की स्थापना को बढ़ावा देना, और
- सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य समारोह का आयोजन करना।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासनों और भारत सरकार के विभागों/मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवलय, प्रधान मंत्री कार्यालय को भेजा जाए।

आदेश दिया जाता है कि सामान्य जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

निरंजना राजकुमार
संयुक्त सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 09 नवम्बर 2004

सं० आई-25011/19/1997-गो० सी०—जोड़ कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् के नियम और विनियम के नियम 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् के नियम और विनियम के नियम 44 (ख) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“44 (ख) क्षेत्रीय समिति की भौगोलिक कवरेज और उनके कार्यों को कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित किया जाए। क्षेत्रीय समितियों के अध्यक्ष महानिदेशक/उप-महानिदेशक, कर्पाट होंगे। क्षेत्रीय समितियों के गठन में निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य शामिल होंगे।

- | | |
|-----------------------|----|
| 1. गैर-सरकारी संगठन | 04 |
| 2. संस्थाएं | 02 |
| 3. प्रतिष्ठित व्यक्ति | 02 |

4. क्षेत्रीय समिति जोन में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्षेत्र में राज्य सरकार का सचिव (आर० डी०) अथवा उसके द्वारा मनोनीत”

ई० जे० जोस, उप सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर 2004

संकल्प

सं० एफ-3-21/2004-यू०-3—मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वायत्त निकाय भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् के संपूर्ण कार्यकरण की समीक्षा का विषय भारत सरकार के विचाराधीन था। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् के नियम 15 के अनुसरण में भारत सरकार एउद्दारा भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् के कार्य की समीक्षा करने, उसके कार्यों की जाँच करने तथा इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए सामाजिक विकास परिषद् के कार्यकारी अध्यक्ष और भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री डी० बन्दोपाध्याय को नियुक्त करती हैं।

2. श्री डी० बन्दोपाध्याय छः महीने की अवधि के अन्दर भारत सरकार को आगे रिपोर्ट सौंप देंगे। समीक्षा के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार होंगे :

(i) परिषद् के संगम ज्ञापन/नियमवली में निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों के संदर्भ में परिषद् के प्रशासनिक और वित्तीय कार्यकरण की समीक्षा;

(ii) 'टुअर्ड्स दी फ्रीडम प्रोजेक्ट' के संस्करणों का प्रकाशन बन्द करने की जाँच;

(iii) जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, 2002-03 में उल्लेख किया गया है परिषद् द्वारा वर्ष 1995-96—2000-2001 के दौरान जितने अध्येत्यों को फेलोशिप प्रदान की गई थी, उनके द्वारा अनुसंधान कार्य नहीं सौंपने की जाँच;

(iv) परिषद् के कार्यकरण के संबंध में लम्बित अथवा मंत्रालय द्वारा प्राप्त अथवा भेजी गई शिक्षार्थी/मुद्दों की जाँच;

(v) समीक्षाधीन किसी भी विषय पर यदि आवश्यक हो, तब प्रत्येक इतिहासकारों/शिक्षागस्त्रियों से परामर्श लेना, और

(vi) परिषद् के कार्यकरण में सुधार लाने तथा इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यथावश्यक उपकारी उपायों के संबंध में सिफारिशें करना और सुझाव देना।

3. समीक्षा समिति के लिए लिपिकीय सहायता की व्यवस्था मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

4. समीक्षा की जिम्मेदारी लेने वाले भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री डी० बन्दोपाध्याय सरकार के सचिव के लिए देय लभ और सुविधाओं के पात्र होंगे। समीक्षा समिति के सदस्य और इसके लिपिकों को भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्/मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियमानुसार सामान्य यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का भुगतान किया जाएगा।

5. भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष एवं सभी अधिकारी समीक्षा समिति को अवगत रिहर्ड, दस्तवेज और सूचना प्रदान करेंगे और समीक्षा की प्रक्रिया और रिपोर्ट तैयार करने के दौरान पूर्णतया सहयोग करेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष और सदस्य सचिव की संकल्प की प्रति अनुपालनार्थ भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना के रूप में भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सुनील कुमार, संयुक्त सचिव

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 9 सितम्बर 2004

सं० ई अर गो-1/2004/23/29--27-2-2002 की गीतर में सावरमती एक्स्प्रेस गाड़ी सं० 9166 में अग की दुर्घटना को जाँच करने के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री यू० सी० बेंजर्जी की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायाधीश के पद के संबंध में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की 4-9-2004 की समसंबंधक अधिसूचना देखें।

2. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने विनिश्चय किया है कि निम्नलिखित विशेषज्ञ उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष को सहयोग प्रदान करेंगे :—

(i) श्री के. बल. केसरी, रेलवे विशेषज्ञ
सेवानिवृत्त सदस्य कार्मिक, (यांत्रिक इंजीनियरी)
रेलवे बोर्ड।

(ii) श्री एस० के० खन्ना रेलवे विशेषज्ञ
सेवानिवृत्त सदस्य बिजली, (बिजली इंजीनियरी)
रेलवे बोर्ड।

(iii) श्री एस० के० डेरो, अग्नि शमन सेक्टरों से
सेवानिवृत्त मुख्य अग्नि संबंधित विशेषज्ञ
शमन अधिकारी,
दिल्ली अग्निशमन सेवा।

3. श्री संजीव गंग, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल यातायात सेवा, इस समिति के सचिव होंगे।

4. इस समिति का मुख्यलय नई दिल्ली में होगा। श्री के० बल. केसरी, रेलवे विशेषज्ञ (यांत्रिक इंजी०) अपने मुख्यलय चले से कार्य करेंगे।

भारत के राजपत्र के नाम और उनके आदेश से जारी।

वी० एन० मधुर, सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को सामान्य सूचना के रूप में भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के० एम० नारायणन, संयुक्त सचिव (राज०)

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 22nd September 2004

No. 126-Pres/2004—The following amendment is made in this Secretariat Notification No. 2-Pres/2004 dated 26th January, 2004 published in Part-I Section 1 of the Gazette of India dated 21st February, 2004 relating to award of Police Medal for Meritorious Service :—

SECOND NAME AT PAGE 29

FOR :— "SHRI SUKUL HEMBRAM"

READ :— "SHRI SUKLAL HEMBRAM"

BARUN MITRA, Director

**MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY &
DAIRYING)**

New Delhi, the 17th September 2004

RESOLUTION

No. 11-2/2002 Admn. IV—In supersession of this Ministry's Resolution of even number dated the 21st October, 2003, the Government of India hereby reconstitutes the Management Committee of Delhi Milk Scheme with immediate effect, with the following composition :—

Chairman

1. Joint Secretary (DD)

Member

2. Director (Finance)

Consumer Representatives

3. Shri Rajendra Bhardwaj
W 2-259-A (FF),
Canara Bank Building,
Uttam Nagar,
New Delhi-110059.

4. Shri Kunwarpal Yadav
C-4, Sarvodaya Colony,
Behind ITI Hostel,
Meerut-250003 (U.P.)

Member Secretary

5. General Manager, DMS

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the State Government/Union Territories, all Ministries/Departments of the Government of India, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, the President's Secretariat, the Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India, the CCA Department of Agriculture & Cooperation, the Principal Director

of Audit, the Director General of Health Services, Mayor, Delhi Municipal Corporation, the Chairman, New Delhi Municipal Committee.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

NEERJA RAJKUMAR
Jt. Secy.

The 22nd September 2004

RESOLUTION

No. F. 1-1/96-LDT(ED)—In supersession of this Ministry's RESOLUTION No. 1-1/96-LDT (ED) dated the 6th October, 2003 the Government of India has decided to reconstitute the Equine Development Board for a period of four years from the date of publication of this resolution.

2. The composition of the Equine Development Board will be as under :—

Chairman

Minister of Agriculture

Vice-Chairman

Minister of State for Agriculture

Members

1. Secretary to Government of India, Animal Husbandry & Dairying Department, Ministry of Agriculture, Krishi Bhavan, New Delhi.
2. Animal Husbandry Commissioner, Animal Husbandry & Dairying Department, Ministry of Agriculture, Krishi Bhavan, New Delhi
3. Joint Secretary (DD&P), Animal Husbandry & Dairying Department, Ministry of Agriculture, Krishi Bhavan, New Delhi-Member Secretary
4. Deputy Director General (Animal Science), Indian Council of Agriculture Research, Ministry of Agriculture, Krishi Bhavan, N. Delhi
5. Additional Director General, Remount Veterinary Services, Army Head Quarters, West Block 3, R. K. Puram, New Delhi-110066
6. Director, Directorate of Animal Husbandry, Government of Rajasthan, Pashudhan Bhavan, Tonk Road, Jaipur (Rajasthan)
7. Director, Directorate of Animal Husbandry, Government of Gujarat, Krishi Bhavan, Sector 10-A, Gandhinagar-382010

8. Director, National Research Centre on Equines, Sirsa Road, Hisar, Haryana-125001
EQUINE ORGANISATIONS

9. President, National Horse Breeding Society of India, 8 Nagar Road, Yervada, Pune-411006

10. Representative of Royal Western India Turf Club Ltd., Race Course, Mahalakshmi, Mumbai-400034.

11. Representative of Royal Calcutta Turf Club, 11, Kussei Street, Kolkata-700071.

NON-OFFICIAL MEMBERS

12. Maharaja Gaj Singh, Chairman, Indigenous Horse Society of India, Umaid Bhavan Palace, Jodhpur-342006.

13. Shri Rajender Singh, Doaba Stud and Agricultural Farm, Pisawa, The Fort, Aligarh District (U.P.).

14. Dr. Cyrus S. Poonawalla, Ph.D., Chairman of Poonawalla Stud Farms & Serum Institute of India, 212/2 Hadapsar, Off Soli Poonawalla Road, Pune-411028.

The Period of nomination of Members at Sl. No. 6, 7, 10, 11, 12, 13 & 14 in the Table above representing Directors of State Animal Husbandry Directorate, Turf Clubs, and Non-Official Members shall be for a period of 2 years.

4. The functions of the Equine Development Boards have been assigned as under :—

- to advice Government on all matters relating to development of equine,
- to assess fresh blood requirement of exotic stock of horses for import,
- to suggest steps for maximizing utilization of imported and other high quality horses.
- to encourage establishment of stud farms for production of high quality horses, and
- to perform any other function assigned by Government.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments, Administrations Union Territories and Departments/Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office.

Ordered that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

NEERA BAKUMAR, Jt. Secy.

**MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT)**

New Delhi, the 09th September 2004

No. I-25011/19/1997-PC—In exercise of the powers conferred on it by rule 55 of the Rules and Regulations of the Council for Advancement of People's Action and Rural Technology, the Government of India has decided that Rule 44 (b) of the Rules and Regulations of the Council for Advancement of People's Action and Rural Technology shall be substituted by the following :—

“44(b) The geographic coverage of the Regional Committee and their functions may be determined by the Executive Committee. The Chairperson of the Regional Committees shall be Director General/Deputy Director General, CAPART. The Constitution of the Regional Committee shall include the following categories of Members :—

- | | | |
|--|---|----|
| 1. VOs | — | 04 |
| 2. Institutions | — | 02 |
| 3. Eminent Persons | — | 02 |
| 4. Secretary (RD) of the State Government in the Region or his Nominee to represent each State/UT in the RC Zone.” | | |

E. J. JOS, Dy. Secy.

**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE
DEVELOPMENT**

**(DEPARTMENT OF SECONDARY &
HIGHER EDUCATION)**

New Delhi, the 6th September 2004

RESOLUTION

No. F. 3-21/2004-U. 3—The Government of India had under consideration the question of review of the over-all functioning of the Indian Council of Historical Research (ICHR), New Delhi, an autonomous body under the Ministry of Human Resource Development, Department of Secondary & Higher Education. In pursuance of Rule 15 of Indian Council of Historical Research, Government of India hereby appoints Shri D. Bandopadhyaya, Executive Chairperson, Council for Social Development and former Secretary to the Government of India to review the work of ICHR, to hold enquiry into the affairs thereof and to report thereon.

2. Shri D. Bandopadhyaya will submit its report to the Government of India within a period of six

months. The terms of reference of the Review will be as under:

- (i) review the administrative and financial functioning of the Council in relation to aims and objectives as laid down in its Memorandum of Association (MOA)/ Rules;
- (ii) probe into non-publication / stoppage of volumes of Towards the Freedom Project;
- (iii) probe into non-submission of research work by scholars, who were given fellowship by the Council during 1995-96—2000-2001, as highlighted in the Report of the C & AG 2002-03;
- (iv) probe into complaints / issues which are pending or could be received or referred by the Ministry about the functioning of the Council;
- (v) consult eminent historians/academicians on any matter under review, if need be; and
- (vi) make such recommendations and suggest remedial measures as are necessary to improve the functioning of the Council and ensure its autonomy.

3. The secretarial assistance to the Review Committee shall be arranged by the Ministry of Human Resource Development.

4. Shri D. Bandopadhyaya, former Secretary to the Government of India, who shall undertake the review may be entitled to the same perquisites and facilities as are admissible to a Secretary to the Government. Normal TA/DA, as per rules, shall be paid to the Member of the Review Committee and its secretarial staff by ICHR/Ministry of Human Resource Development.

5. Chairman and all officials of ICHR will provide necessary records, documents, information to the Review Committee and fully cooperate with it during the process of review and preparation of report.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Member Secretary of ICHR for compliance.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SUNIL KJMAR, Joint Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 9th September 2004

No. ERB-I/2004/23/29—Reference Ministry of Railways (Railway Board)'s Notification of even number dated 4-9-2004 regarding constitution of the High Level Committee to inquire into the incident of fire in Train No. 9166 Sabarmati Express at Godhra on 27-2-2002 under the Chairmanship of Mr. Justice U. C. Banerjee, Judge (Retd.), Hon'ble Supreme Court of India.

2. Ministry of Railways (Railway Board) have decided that the following experts shall assist the Chairman of the High Level Committee : —

- (i) Shri K. Balakesari — Railway Expert
Retd. Member Staff, (Mech. Engg.)
Railway Board.
- (ii) Shri S. K. Kanna — Railway Expert
Retd. Member Electrical (Elec. Engg.)
Railway Board.
- (iii) Shri S. K. Dahi, — Expert in Fire
Retd. Chief Fire Officer Services
Delhi Fire Services

3. Shri Sanjiv Garg, SAG/IRTS, shall be the Secretary to the Committee.

4. The Committee will be headquartered at New Delhi. Shri K. Balakesari, Railway Expert (Mech. Engg.) shall operate from Chennai as his headquarters.

By order and in the name of the President of India.

V. N. MATHUR, Secy.

ORDER

Ordered that the Notification be published in the Gazette of India for general information.

K. M. NARAYANAN
Jt. Secy. (Gaz.)